

प्रेस नोट थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर दिनांक 28.01.2023

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण में देवी गुलाम, क्षेत्राधिकारी बांसी के कुशल निर्देशन में, अनुज कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक बांसी के नेतृत्व में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 27.01.2023 को बांसी पुलिस टीम द्वारा 03 व्यक्तियों को 270 शीशी अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। जिनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए मु0अ0सं0 17/2023 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त /बरामदगी का विवरण-

1. सुन्दरम पुत्र सुरेश गौड़ निवासी मोहल्ला प्रतापुर थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर (बरामदगी 80 शीशी शराब)
2. दिव्यांग जायसवाल पुत्र दिनेश जायसवाल निवासी मोहल्ला अशोकनगर थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर (बरामदगी 90 शीशी शराब)
3. कार्तिक गौड़ पुत्र शंकर गौड़ निवासी मोहल्ला टेकधर नगर थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर (बरामदगी 100 शीशी शराब)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्र0नि0 अनुज कुमार सिंह थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर।
2. उ0नि0 आनन्द कुमार थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर।
3. हे0का0 हरिकेश यादव थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर।
4. का0 नौमीनाथ यादव थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर।
5. का0 कन्हैया थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट दिनांक 28-01-2023 थाना समाधान दिवस जनपद सिद्धार्थनगर

जनपद के समस्त थानों पर थाना समाधान दिवस का आयोजन कर फरियादियों की शिकायतों की सुनवाई कर निस्तारण किया गया।

अमित कुमार आनंद, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में आज दिनांक 28-01-2023 को जनपद के समस्त थानों पर भी "थाना समाधान दिवस" का आयोजन किया गया, जिसके क्रम में समस्त क्षेत्राधिकारीगण द्वारा अपने सर्किल के थानों एवं समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने-अपने थानों पर समाधान दिवस का आयोजन कर जनता की समस्याओं को सुना गया व उनका निस्तारण किया गया। भूमि विवाद से सम्बंधित प्रकरण को हल्का लेखपाल से समन्वय स्थापित कर निस्तारण कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया।

प्रेस नोट दिनांक 28-01-2023 थाना गोल्हौरा जनपद सिद्धार्थनगर
थाना गोल्हौरा पुलिस द्वारा परिवार परामर्श केंद्र/नई-किरण के तहत 01 परिवार को बिखरने से
बचाया गया ।

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश पर व सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व हरिश्चंद्र, क्षेत्राधिकारी इटवा के कुशल निर्देशन में व राहुल सिंह यादव, प्रभारी निरीक्षक गोल्हौरा के नेतृत्व में आज दिनांक 28-01-2023 को आवेदिका श्रीमती साबिया पत्नी जब्बार(डब्लू) साकिन लक्ष्मणपुर बघनी थाना गोल्हौरा जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि प्रार्थिनी के पति द्वारा प्रतिदिन प्रताड़ित किया जाता है इस प्रार्थना पत्र पर महिला हेल्प डेस्क पर नियुक्त महिला आरक्षी प्रियंका द्वारा उसके पति जब्बार साकिन लक्ष्मणपुर बघनी थाना गोल्हौरा जनपद सिद्धार्थनगर को बुलाकर महिला हेल्प डेस्क में बैठाकर सुलह समझौता कराकर 01 पत्रावली का सफल निस्तारण कर परिवार को बिखरने से बचाया गया जिसमें म0आरक्षी प्रियंका का महत्वपूर्ण योगदान रहा निस्तारित पत्रावली का विवरण-

01. साबिया पत्नी जब्बार साकिन लक्ष्मणपुर बघनी थाना गोल्हौरा जनपद सिद्धार्थनगर ।

प्रेस नोट दिनांक 28-01-2023 जनपद सिद्धार्थनगर
महिला थाना पर परिवार परामर्श केंद्र/नई-किरण का आयोजन कर जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा
01 परिवार को बिखरने से बचाया गया ।

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देश पर आज दिनांक 28-01-2023 को महिला थाना सिद्धार्थनगर पर परिवार परामर्श केंद्र/नई किरण का आयोजन किया गया । इस आयोजन में 04 पत्रावली विचारार्थ प्रस्तुत हुई जिसमें परामर्श के बाद 01 पत्रावली का सफल निस्तारण कर 01 परिवार को बिखरने से बचाया गया तथा शेष 03 पत्रावलियों में वार्ता प्रचलित है, 01 परिवार को बिखरने से बचाने में महिला थाने से म0हे0मु0 सबिता सिंह ,म0आ0 कौशल्या मद्धेशिया, म0आ0 प्रतीची शुक्ला व म0आ0 अर्चनारानी का महत्वपूर्ण योगदान रहा ।-

निस्तारित पत्रावली का विवरण-

1. सीमा पत्नी उमेश साकिन महदेवा तिवारी थाना जोगिया उदयपुर, जनपद सिद्धार्थनगर।

प्रेस नोट थाना कठेला समय माता दिनांक 28.01.2023

थाना कठेला समयमाता पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी को गिरफ्तार कर भेजा माननीय न्यायालय ।

अमित कुमार आनन्द, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन व जयराम क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ के कुशल पर्यवेक्षण में संतोष कुमार यादव प्रभारी निरीक्षक थाना कठेला समय माता जनपद सिद्धार्थनगर के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 28.01.2023 को 01 नफर वारण्टी अभियुक्त सम्बन्धित वाद संख्या- 736/16 धारा 419/420/467/468/471 भादवि0 में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. रामपियारे पुत्र लालमन साकिन नवेल थाना कठेला समय माता सिद्धार्थनगर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

01. उ0नि0 श्री रामस्वरूप, थाना कठेला समय माता जनपद सिद्धार्थनगर ।

02. का0 उमाशंकर सिंह, थाना कठेला समय माता जनपद सिद्धार्थनगर ।